

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-जनपद शाहजहांपुर दिनांक 07.11.2022

थाना रोजा पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते 02 शातिर अभियुक्तगण अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन , पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमित चौरसिया के कुशल प्रयवेक्षण मे चलाये जा रहे **चोरो एवं चोरी को रोकने** , अवैध शस्त्र एवं उसका निर्माण तथा बिक्री एवं अवैध हथियार के दुरुपयोग को रोकने हेतु सघन अभियान क्रम थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा जगह जगह छापेमारी कर 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.11.22 को थाना रोजा को मिली सूचना के आधार पर जगह जगह छापेमारी की गयी जिससे **बरतारा रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते से समय प्रातः 04.05 बजे** दोनो अभियुक्तगण को पकड लिया। पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम संजू सिंह पुत्र बुधपाल सिंह निवासी ग्राम रझौआ कला थाना रोजा बताया जामा तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक लोहे की नुकीली सरिया (राड) व अदद तमंचा 315 बोर व पेंट की बायी जेब से एक अदद जिन्दा कार0 315 बोर बरामद हुआ था एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रामजीवन पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम आंझी थाना शाहबाद जिला हरदोई बताया जिससे एक हथौडी तथा बायें हाथ मे एक अदद टार्च बरामद हुए तथा इसकी पहनी पैंट की बायी साइड मे घुसा एक अदद तमंचा 315 बोर व पैण्ट की दाहिनी जेब एक अदद कार0 जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ था। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. संजू सिंह पुत्र बुधपाल सिंह निवासी ग्राम रझौआ कला थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर।
2. रामजीवन पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम आंझी थाना शाहबाद जिला हरदोई।

पंजीकृत अभियोग :-

1. मु0अ0स0 838/22 धारा 401 भा0द0वि0 थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर
2. मु0अ0स0 839/22 धारा 3/25 A ACT थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी :-

1. लोहे की नुकीली सरिया (राड)
2. दो अदद तमंचे 315 बोर व 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर
3. एक अदद टार्च व एक हथौडी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 मो0 मतीन खाँ
2. का0 411 आजाद निषाद
3. का0 1906 मयंक कुमार
4. का0 2522 सोविन्द्र कुमार